



**MOONGIPA
SECURITIES LTD.**

February 12, 2021

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 539199

Sub: Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith **Copy of Newspaper advertisement** of the Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2020 publish in 'Mahalaxmi Bhagyoday' (Hindi) & 'Money Makers' (English) dated February 12, 2021.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you,

For Moongipa Securities Limited



Sanjeev Jain
Company Secretary and Compliance Officer

(CIN : L74899DL1994PLC057941)

Regd. Office : 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005, Ph.: 011-41450121
E-mail : moongipas@gmail.com, Website : www.moongipa.net

Delhi's fight against pollution set to get smarter

MM BUREAU
New Delhi/February 11
 The Delhi government will start in six-seven months its first source apportionment project and real-time monitoring of pollution, tools which will be employed to make better strategies to curb air pollution in Delhi.

Source apportionment is the practice of deriving information about pollution sources and the amount they contribute to ambient air pollution levels.

The new model was finalised after a meeting on Tuesday between Delhi chief minister Arvind Kejriwal and a team of scientists from IIT-Kanpur, IIT-Delhi and The Energy Resources Institute (TERI). The scientists made a presentation before the

chief minister and said that the new system will not just provide data on the concentration of PM 2.5 (ultrafine particulate matter with diameter less than 2.5 micrometres) in the air, but will also give information on the constituents of these fine particles, a first for the national capital.

In a statement issued on Wednesday, the Delhi government said, "Source apportionment project in Delhi, along with setting up of an advanced monitoring system of real-time pollution sources will help in monitoring sources and allow Delhi government to take immediate action against these sources."

According to a Swiss based group, IQ Air/Vital,



Delhi was listed as the world's most polluted capital city for the second straight year in 2019. The study measured the concentration of hazardous PM2.5 particles that are less than 2.5 microns in diameter and can be carried deep into the lungs, as higher PM2.5 levels could cause deadly diseases, including cancer and cardiac problems. Every winter, the city's air turns toxic with the air quality mark reaching emergency levels on several days.

with the project said the collection and assessment of data will be done at two levels through a 'super site' and through 'mobile air labs'.

Advanced air quality monitoring equipment will be set up at the 'super site' in different locations where hourly data for pollutants will be recorded. Scientists said these sites will not only provide data on levels of PM 2.5 in that location at any given point of time but will also give details of the composition of ultrafine particles, using which the exact source of pollution can be traced.

"These 'super sites' will help authorities act immediately against the sources. Apart from short-term action, the recordings

will facilitate long-term analysis, helping agencies draw up policies. For instance, the agencies will know which pollution sources are consistently contributing to the pollution levels in an area and action can be taken to tackle it permanently," said Mukesh Sharma, professor, department of civil engineering, IIT-Kanpur, who led the team of scientists during the meeting with Kejriwal.

"Daily variations can depend on temporary things like construction activities or high traffic movement but if it is persistently contributing to the poor air quality in an area then solutions need to be drawn," Sharma added.

Currently, Delhi Pollution Control Committee's (DPCC)

air quality monitoring stations provide hourly average data on PM 2.5 and PM 10 levels. The Central Pollution Control Board (CPCB) last year started real-time monitoring at 18 pollution hot spots.

At a more micro level, the scientists are also developing 'mobile air labs', which will move around the city and record pollution levels and specific sources at a particular period of time.

Sunil Sharma, director, earth science and climate change division, TERI, who is also involved with the project, said air quality models will also be used to record details such as from where the pollution is coming and what could be the strategies to control it.

"The Delhi government told us very clearly that they have source apportionment studies available with them, but those studies are static studies giving details for a particular period of time. They (government) wanted daily and hourly data of emissions and which sources are contributing to these levels, using which effective strategies can be made to control it," Sharma said.

A senior DPCC official said they have enlisted some recommendations before the team of scientists to tailor-make the technology for Delhi. "We will further improve the system but we can say for sure that this technology will help us monitor pollution sources more effectively," the official said.

EDMC scraps new taxes for FY21-22

MM BUREAU
New Delhi/February 11
 The East Delhi Municipal Corporation (EDMC) on Wednesday scrapped all new taxes such as betterment tax, education cess and professional tax, which were proposed by the EDMC additional commissioner in the budget presented last December for financial year 2021-22.

The civic body has, instead, decided to bring more properties under the tax ambit to boost its revenue. It has also decided to approach the Delhi government to ask for its dues of ₹2.95 crore to improve its financial situation.

The total budget projection of the East corporation for fiscal 2021-22 is ₹4.63 crore.

Presenting the final budget estimates for the financial year 2021-22, leader of the houses in EDMC Praveen Sharma said increasing tax on properties cannot be the

only solution to boost revenue collection. "There will be no new tax for the people living in (neighbourhoods) under the EDMC jurisdiction. The public are already suffering because of the coronavirus pandemic, hence, we will not levy any new tax. The proposal of imposing new taxes has been scrapped," Sharma said.

In the initial budget proposals for 2021-22, presented by EDMC additional commissioner Ramesh Verma on December 9, it was proposed to impose three new taxes — professional tax, betterment tax and education cess.

Professional tax has already been approved by the South Delhi Municipal Corporation whereby professionals such as doctors, lawyers, architects — both salaried and self-employed — will have to pay a tax based on different income slabs. The betterment tax was to be levied against properties, the value of which have been constantly rising because

of public infrastructure development works.

The additional commissioner had also proposed an education cess of 5% on the annual property tax.

Sharma further said there are other ways to bolster revenue so instead of new taxes or hiking property tax, the civic body has decided to bring more people under its tax net. "At present, only 2.5 lakh properties in the EDMC pay taxes while the number of taxable properties is above 14 lakh. So, we will conduct a fresh survey of properties from which tax can be collected and will start special drives to improve tax collection," Sharma said.

He also said that the municipality will want

pressure on the Delhi government to release ₹2.95 crore, due towards EDMC, so that the civic body's financial health improves.

Sharma said that the budget also proposes to install 100 streetlights in each ward wherever there are dark spots.

Reacting to the final budget estimates, leader of opposition in the EDMC and Ann Aadani Party (AAP) councillor Mang Tyagi said, "It is not a people friendly budget as there is no new public oriented announcement. They

have also not announced new proposals to boost EDMC's revenue.

Blaming the AAP government is wrong as there are no dues for the government to clear. Instead of giving funds from the government, the BJP-led civic body should make efforts to increase its revenue."


Third suspect in Red Fort violence arrested from Punjab

New Delhi/February 11
 The police on Wednesday said they have arrested Iqbal Singh, who they claimed instigated the protesters gathered at the Red Fort and vandalised property and clashed with security personnel during the tractor rally taken out by the farmers on Republic Day. Singh was arrested from Hoshiarpur in Punjab on Tuesday night, the third suspect in the Red Fort violence case. The police arrested Punjab actor-turned-activist Deep Sidhu from Karnal byearh in Haryana on Monday and Sukhdeep Singh from Chandigarh on Sunday. Deputy commissioner of police (special cell) Sanjeev Kumar Yadav said Iqbal Singh delivered a "provocative speech" and "instigated the mob to storm Red Fort and hoist religious flags". Iqbal also "intimidated" police personnel during the violence at the monument, said Yadav after Iqbal's initial interrogation at the special cell's Rohini office on Wednesday. "Iqbal Singh was very excited... He did a Facebook live from the Red Fort and can be heard instigating people to climb onto the fort."

Gurudwara committee gets lawyers under one roof to fight for arrested farmers

MM BUREAU
New Delhi/February 11
 Inside a room at the Sishu Gurudwara Management Committee's (DSGMC) office, next to the Rababganj gurudwara, several families from Punjab who have come to the national Capital after learning that their relatives were arrested for the violence on Republic Day wait.

These families are waiting for their turn to meet with lawyers inside the conference hall of the committee's office. It is a busy room — advocates noting details of the arrested persons, getting signatures of their relatives on court papers, explaining to them how the legal battle has just begun and is to be fought. Outside the room, officials of DSGMC are helping make photocopies of court documents, and identity proof records of the men who have been arrested by the Delhi police for rioting, attacking security personnel



on duty, damaging public property, among other crimes, on January 26. At least 304 police personnel and 304 farmers were injured when protesters deviated from a pre-approved route of the tractor rally on Republic Day and clashed with police when they were stopped from entering parts of Central and New Delhi. From directly

speaking to the families, to circulating messages and offering pro-bono legal services on the social media groups of villages in Punjab and Haryana — it is this room, which can hold 50-70 people, that lawyers representing the accused have set up base. Delhi police have intensified their investigations in the violence.

speaking to the families, to circulating messages and offering pro-bono legal services on the social media groups of villages in Punjab and Haryana — it is this room, which can hold 50-70 people, that lawyers representing the accused have set up base. Delhi police have intensified their investigations in the violence.

DDA gives nod for eco-friendly revamp of green belt villages in city

MM BUREAU
New Delhi/February 11
 With a view to encourage eco-friendly development, the Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday approved the Green Development Area (GDA) policy, to regulate infrastructure and other works in villages that are located in the green belt on Delhi's periphery as well as low-density residential areas (LDRA), where a majority of farmhouses are located. The policy is much needed, experts said, and will help regulate development activities in villages and ensure that they happen in a sustainable and green manner, without compromising Delhi's green lungs. A total of 70 villages in the urban extensions of the national capital will benefit from the policy, once it is notified, officials in the know of the matter said. As per the Master Plan of Delhi 2021 (MPD 2021), the green belt extends from the periphery of the national capital "up to a depth of one peripheral.

BIHARIJI SPAT UDYOJYON LIMITED
 Registered Office: G/6, CHIRAGU FORTWAL, 42, NAGRO PLACE, NEW DELHI-110019, Ph. No. 011-26242444, e-mail: bihariji@spat.com, www-site: www.bihariji.com

Extract of the Audited Standalone Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2020 (₹ in Lakhs)

S. No.	Particulars	3 months ended in current year 31/12/2020 Un-audited	9 months ended in current year 31/12/2020 Un-audited	Corresponding 9 months ended in the previous year 31/12/2019 Un-audited
1	Total Income from Operations	828.01	859.99	22.54
2	Net Profit/(Loss) for the period (after tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(51.11)	(73.83)	6.01
3	Net Profit/(Loss) for the period (after tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(51.11)	(73.83)	6.01
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(51.11)	(73.83)	8.36
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(51.11)	(73.83)	4.86
6	Basic Share Capital (₹ in Lakhs)	600	600	600.00
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year as on 31.03.2020			2971.91
8	Earnings Per Share (EPS) of ₹ (10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	(a) Basic	(0.85)	(1.23)	0.08
	(b) Diluted	(0.85)	(1.23)	0.08

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed form of Standalone Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 is available on the Stock Exchange website (www.sebi.in) and on Company's website (www.bihariji.com).

2. The above Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 11.02.2021.

For and on behalf of the Board of Directors
 BIHARIJI SPAT UDYOJYON LIMITED
 Sd/-
 (N.K. SUREKA)
 Managing Director
 DIN: 00091922

Place: New Delhi
 Date: 11.02.2021

Carrier
CARRIER TECHNOLOGIES INDIA LIMITED
 (FORMERLY KNOWN AS UTC FIRE & SECURITY INDIA LIMITED)
 CIN: U29130MH1991FLC024364
 Registered Office: Unit No. 8, 1st Floor, The Centrum, Lal Bahadur Shastri Marg, Kirti Nagar, New Delhi-110029, India.
 Website: https://www.carrier.com/india/en/india/investor
 Email: investor@carrier.com
 Phone: +91-124-4825861

NOTICE
 (For the kind attention of the Shareholders of the Company)

Sub: Transfer of Unclaimed Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF")

This Notice is published pursuant to the provisions of the Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016.

The Rules among other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which the dividends have not been paid or claimed by the Shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspend Account. It may be notified that the Company has already transferred unclaimed dividend in respect of the final dividend declaration for the financial year 1999-2000. The corresponding shares of the mentioned dividend account will be transferred to the IEPF by or on 8th June, 2021 as per the prescribed procedure.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose dividend has been transferred and corresponding shares are liable to be transferred to IEPF/IEPF Suspend Account under the said Rules for taking appropriate action by or before 10th May, 2021 as per the prescribed procedure.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Account on its website at https://www.carrier.com/india/en/india/investor/ to verify the details of the unclaimed shares liable to be transferred to IEPF/IEPF Suspend Account.

Shareholders may note that both the unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF/IEPF Suspend Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the concerned shareholder from the IEPF Authority by making an application in IEPF-5 as described under the Rules. As per the above mentioned Rules, only one such request can be made in one year.

The concerned shareholders, holding shares in physical form, if any, and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them. After issue of duplicate share certificate(s), the Company may by way of corporate action, will convert the duplicate share certificate(s), if any, into DEMAT form and transfer the shares into IEPF as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details notified by the Company on its website should be regarded as final and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

In case no valid claim in respect of equity shares is received from the shareholders, by due date or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF by the given date as per the procedure stipulated in the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend account and equity shares transferred to the IEPF.

In case, the shareholders have any queries on the subject matter and Rules, they may contact the Company at Telephone: +91-124-4825861 and E-Mail: investor@carrier.com or at the Company's Registrar and Transfer Agent at Astron Corporate Services Private Limited (CIN: UG7190MH1994PTC070160), 19/20, Jafferjee Industrial Estate, Makwana Road, Marol Naka, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400059, Maharashtra, India; Tel: (022) 42270449 / 42270423 / 42270427; Fax: (022) 28503748; E-Mail: info@astroncs.com.

By the order of the Board
 For Carrier Technologies India Limited
 Anurag Gupta
 Company Secretary
 Membership No.: A43500

Date: 12th February, 2021
 Place: Gurugram

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD
 (CIN: L65993DL1987PLC028668)
 Regd. Office-18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005
 Ph. No. 011-41450121
 Email: moongipac@gmail.com, website: www.moongipa.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020 (Amount in ₹ in Lakhs, except per share data)

S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
		31.12.2020 Un-audited	30.09.2020 Un-audited	31.12.2019 Un-audited	31.12.2019 Un-audited	31.12.2019 Un-audited	31.03.2020 Un-audited
1	Total Income from Operations (Net)	37.14	15.63	26.06	79.67	44.50	59.97
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	24.70	5.89	3.69	43.24	(105.30)	(60.30)
3	Net Profit/(Loss) for the period (after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items))	24.70	5.89	3.69	43.24	(105.30)	(60.30)
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items))	19.28	4.36	4.07	40.77	(105.68)	(60.41)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	19.28	4.36	4.07	40.77	(105.68)	(60.41)
6	Paid-up equity share capital (face value of ₹. 10/- each)	305.48	305.48	305.48	305.48	305.48	305.48
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year	26.47	26.47	86.88	26.47	86.88	86.88
8	Earnings Per Share (EPS) of ₹ (10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	a. Basic	0.63	0.14	0.13	1.33	(3.46)	(1.90)
	b. Diluted	0.63	0.14	0.13	1.33	(3.46)	(1.90)

Notes:
 1. The above standalone Unaudited Financial Results for the quarter & nine months ended 31st December 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 11th February, 2021.
 2. The above is an extract of the detail form of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter & nine months ended 31st December, 2020, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.sebi.in) and company's website (www.moongipa.com).

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS OF MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD.
 Sd/-
 POOJA JAIN
 WHOLE TIME DIRECTOR
 DIN: 00097037

DATE: DELHI
 DATE: 11th February, 2021

MOONGIPA SECURITIES LIMITED
 (CIN: L48990DL1994PLC057841)
 Regd. Off-18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005
 Ph. No. 011-41450121
 Email: moongipac@gmail.com, website: www.moongipa.net

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020 (Amount in ₹ in Lakhs, except per share data)

S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
		31.12.2020 Un-audited	30.09.2020 Un-audited	31.12.2019 Un-audited	31.12.2019 Un-audited	31.12.2019 Un-audited	31.03.2020 Un-audited
1	Total Income from Operations (Net)	79.81	39.84	12.52	136.50	57.90	49.11
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	54.28	29.62	2.67	93.33	(21.67)	(95.13)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	54.28	29.62	2.67	93.33	(21.67)	(95.13)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	49.61	31.58	1.29	91.70	(24.90)	(99.75)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	49.61	31.58	1.29	91.70	(24.90)	(99.75)
6	Paid-up equity share capital (face value of ₹. 10/- each)	501.02	501.02	501.02	501.02	501.02	501.02
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year	150.09	150.09	249.84	150.09	249.84	249.84
8	Earnings Per Share (EPS) of ₹ (10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	a. Basic	0.99	0.63	0.03	1.83	(0.50)	(1.99)
	b. Diluted	0.99	0.63	0.03	1.83	(0.50)	(1.99)

Notes:
 1. The above standalone Unaudited Financial Results for the quarter & nine months ended 31st December 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 11th February, 2021.
 2. The above is an extract of the detail form of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter & nine months ended 31st December, 2020, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.sebi.in) and company's website (www.moongipa.net).

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS OF MOONGIPA SECURITIES LIMITED.
 Sd/-
 RUCHI JAIN
 WHOLE TIME DIRECTOR
 DIN: 07216263

Place: New Delhi
 Date: 11th February, 2021

